

पाठ 10 तोतो चान

मुख से

इन प्रश्नों के उत्तर बताइए।

क) नए स्कूल का दरवाज़ा कैसा था?

उत्तर- नए स्कूल का दरवाज़ा पेड़ के दो तनु का था। उन पर टहनियां और पत्ते भी थे।

ख) स्कूल के बाग में तोतो चान ने क्या देखा?

उत्तर- स्कूल के बाग में तोतो चान ने देखा कि वहां स्कूल के कमरों की जगह रेलगाड़ी के डिब्बे थे, जिनमें स्कूल की कक्षाएं लगीं हैं।

ग) तोतो चान को स्कूल कैसा लग रहा था?

उत्तर- तोतो चान स्कूल को देखकर बहुत खुश हुई। वह जल्दी से जल्दी स्कूल की कक्षा में जाना चाहती थी।

घ) स्कूल के चारों ओर दीवारों की जगह क्या था?

उत्तर- स्कूल के चारों ओर दीवारों की जगह पेड़- बाग की क्यारियां थी, जो लाल- पीले फूलों से भरी हुई थीं।

कलम से

1. इन प्रश्नों के उत्तर लिखिए।

क) रेलगाड़ी के डिब्बे देखकर तोतो चान को क्या लग रहा था?

उत्तर- रेलगाड़ी के डिब्बे को देखकर तोतो चान को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसे लगा कि ऐसा तो सपनों में ही होता है। रेलगाड़ी में स्कूल!

ख) तोतो चान रेलगाड़ी देखकर क्यों भागी?

उत्तर- तोतो चान रेलगाड़ी देखकर इसलिए भागी क्योंकि वह जल्दी से ट्रेन में सवार होना चाहती थी।

ग) मां ने तोतो चान को डिब्बे के दरवाज़े पर रोककर क्या कहा?

उत्तर- मां ने तोतो चान को रोककर कहा, “यह कक्षाएं हैं और अभी तुम स्कूल में भर्ती नहीं हुई हो। यदि तुम सचमुच इस रेलगाड़ी पर चढ़ना चाहती हो, तो तुम्हें हेडमास्टर साहब के सामने कायदे से पेश आना होगा। यदि सब कुछ ठीक रहा, तो तुम इस स्कूल में आ सकोगी।”

घ) हेडमास्टर साहब का दफ़्तर कहाँ था?

उत्तर- हेडमास्टर साहब का दफ़्तर रेलगाड़ी के डिब्बे के पास दाहिने हाथ की ओर एक मंज़िले भवन में था।

ड) 'जिनसे हम मिलने जा रहे हैं, वे ज़रूर स्टेशन मास्टर होंगे।' तोतो चान ने यह किनके लिए और क्यों कहा?

उत्तर- उपरोक्त पंक्तियाँ तोतो चान ने हेडमास्टर साहब के लिए कहीं क्योंकि स्कूल की कक्षाएँ रेलगाड़ी के डिब्बे में थीं और यदि वे इन डिब्बों के मालिक हैं तो वे स्टेशन मास्टर हुए।

च) मां को अनूठी बात क्या लगी?

उत्तर- मां को रेलगाड़ी के डिब्बों में स्कूल चलाना अनूठी बात लगी।
